

Fusion Finance Limited

Formerly known as Fusion Micro Finance Limited)

Letter No. FFL/SEC/2024-25/SE-113

Date: 16.11.2024

The Manager	The Manager
Listing Department	Listing Department
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block Bandra	Phiroze Jeejeebhoy Towers
Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	Dalal Street, Mumbai - 400 001
Scrip Code: FUSION	Scrip Code: 543652

Sub: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Submission of Newspaper Publication Cutting

Dear Sir/Ma'am,

In accordance with Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of Newspaper publication of unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2024 published in Financial Express and Jansatta on November 16, 2024.

The Board Meeting in which the aforesaid unaudited financial results are approved, commenced at 5:00 PM on November 14, 2024 which continued till 11:45 PM and after adjournment, the same meeting resumed at 10:00 AM and concluded at 08:20 PM on November 15, 2024.

Further, this is to inform that the Trading Window of the Company, which was closed w.e.f. October 01, 2024, shall open on November 18, 2024 i.e. after the end of 48 hours from the declaration of unaudited financial results for the Quarter and Half year ended September 30, 2024.

Kindly take the same on your record.

Thanking you, Sincerely,

For Fusion Finance Limited (Formerly Fusion Micro Finance Limited)

Deepak Madaan Company Secretary & Chief Compliance Officer Membership No. A24811 Place: Gurugram **FINANCIAL EXPRESS**

3

ECONOMY

China emission curbs task: 66% between now & 2030

AMITABH SINHA Baku, November 15

IN A FIRST-OF-ITS-KIND assessment of emissions reductions required from China, a new analysis has found that the world's largest emitter must reduce its emissions by at least 66% from current levels for the world to remain on track to meet the 1.5 degree Celsius climate objective in 2030.

The analysis, by Carbon Action Tracker (CAT), an independent scientific project, essentially means that the 1.5 degree Celsius target would be missed if China did not cut down its emissions by more than half in a span of just six years, an extremely improbable event. China, which accounts for nearly 30 per cent of annual global emissions, currently has no emission reduction targets, and its emissions are still growing year on year. A report released earlier this week said China's emissions in 2024 were likely to be 0.2 per cent higher than the previous year. It was originally aiming to let its emissions peak only in 2030, but recent estimates suggest that the peaking might happen by 2025 at the latest.

China's emission's have grown nearly four-fold since 1990. It is the world's largest



Activists participate in a demonstration against fossil fuels at the COP29 UN Climate Summit, in Baku, Azerbaijan, on Friday

emitter since 2006, but because it is categorised as a developing country in the global climate architecture, it is not mandated to make absolute emission cuts like the developed nations. But without large emissions cuts from China, all climate targets, including the global net-zero, would be very difficult to be achieved. China's own target of a net-zero status by 2060 would require it to reduce its

emissions by at least 27 per cent by 2035, the analysis said. The Carbon Action Tracker's analysis found that the United

States must reduce its emissions by at least 65 per cent from 2005 levels by 2030.

The US is currently aiming to achieve 50-52 per cent reduction by that time, and even appears threatened now because of election of Donald Trump as President.

India's emissions in 2030 must not be more than 25% above 2005 levels to remain 1.5 degree aligned, the analysis said. India's current emissions are already more than 50% above 2005 levels, and continuing to grow. They are not expected to decline in the 'Unfair' climate-linked trade measures slammed

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 15

DEVELOPING COUNTRIES STRONGLY opposed unilateral trade measures disguised as climate actions at the COP29 climate talks on Friday, calling them "discriminatory" and harmful to global cooperation. They argued these measures violate the principles of equity and common but differresponsibilities entiated (CBDR).

China, on behalf of the BASIC group of countries, submitted a proposal to the UN climate body last month requesting that this year's climate talks address the issue of unilateral trade measures such as the European Union's Carbon

AP

COP29

Baku,

threshold.

Although the proposal did not make it to the formal agenda even after a prolonged debate on the first day of the summit, COP29 president Mukhtar Babayev

Azerbaijan announced consultations on the issue, with outcomes to be shared at the conference's conclusion.

Making an intervention in the presidential consultations



Inger Andersen, executive director, UNEP (left), and Mukhtar Babayev, COP29 president, at a ministerial breakfast on Friday

India said restrictive unilat-

eral measures force developing

and low-income nations to

bear the costs of transitioning

to low-carbon economies,

undermining climate finance

commitments from developed

nations, which have histori-

cally benefitted from industri-

alisation and contributed the

most to greenhouse gas emis-

in the reversal of climate

finance mobilised by the devel-

oped countries. It is like asking

the victim to pay for the rem-

edy.Any unilateral measures in

the name of climate change

responses are discriminatory

towards developing countries

and detrimental to multilat-

eral cooperation," it said.

"They effectively will result

sions.

on Friday, India said this is a matter of global concern that needs urgent consideration to ensure the development pathways of developing countries are not constricted.

Other groups of developing countries, including the G77, the largest bloc representing over 130 nations at the UN climate talks, and Like-Minded Developing Countries also registered their strong opposition on the issue.

However, developed countries, particularly the European Union, argued that the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is not the right platform to discuss this issue, as it is already being addressed by the World Trade Organization. Jewellers face challenges as wedding season, Maha polls clash

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, November 15

JEWELLERS ARE FACING challenges in doing hassle-free business during the peak wedding season, which has coincided with the Maharashtra Assembly polls this year, as their goods and bank accounts are being seized by officials despite having relevant papers, an industry body said.

The Model Code Conduct (MCC) is in place in Maharashtra since October 15 in view of the polls on November 20. To enforce the code, the Election Commission (EC) has constituted flying squads and surveillance teams across the state to check movement of unaccounted cash and goods which can be used to induce voters.

"We have received clarity

from the EC office regarding movement of goods and we are thankful to them. However, jewellers are still facing chal lenges like seizing of their accounts despite showing all the necessary documents, which are hindering seamless business during the wedding season,"All India Gem and Jewellery Domestic Council (GJC) chairman Saiyam Mehra said.

He said the goods seized by officials working EC direction will only be returned after the elections are over. Mehra stated that the gems and jewellery industry, a major job creator, is expecting incentives and tax concessions in Maharashtra, a key market for them, when a new government is formed after announcement of poll results on November 23. "The gems and jewellery industry in Maharashtra is expecting a significant growth post-elections and we will be making a representation before the government to create more jewellery parks and CFCs (Common Facility Centres). Also, employment generation should be a priority," he noted. For large manufacturing units, he maintained, the industry is expecting relief in electricity charges and also increase in limit for the collateral-free business loan to ₹5 crore from ₹2 crore now.

Border Adjustment Mechanism (CBAM).

'Clarity on financial support key to meeting climate targets'

near future.

The CAT analy-

sis is the latest

reminder of the

target that the

world is pursuing

for 2030. The

Intergovernmen-

tal Panel on Cli-

(IPCC) estimated

that global emis-

Change

sions would have to decline

43% from 2019 levels by 2030

to keep alive hopes for remain-

ing within the 1.5 degree

mate

Celsius

near-impossible

THE GREEN ENERGY industry has long been demanding increased financing to tackle climate change, a key agenda in the ongoing climate change conference COP29. Meeting global climate goals will require over \$1 trillion annually by 2030, far beyond the current commitments, Naveen Khandelwal, CEO of BrightNight, tells Arunima Bharadwaj in an interview. It's been fifteen years since the \$100-billion annual target was set, and this year's *New Collective Quantified Goal* (NCQG) aims to address the glaring gap. Khandelwal is optimistic that with the new NCGQ, capital flow will expand to under-served regions, ensuring a global transition to renewable energy. In India's case, he highlighted that financing for new technologies and emerging markets remains tough. Excerpts:

What are likely to be the key focus areas and agendas in the COP29? What are your expectations?

COP29 could be the pivotal moment to establish a realistic financial strategy for climate action. It's been fifteen years since the \$100-billion annual target was set, and this year's NCQG aims to address the glaring gap. The core questions-how much, from whom, and to whom-need definitive answers to move forward. As weather extremes worsen and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) warns of a potential 2.4°C

rise, there is no denying the existence of climate change -- the urgency of climate action is at an all-time high. A focus on funding adaptation finance for vulnerable nations, along with transparent financial structures, would hence be a powerful step.

This summit has the chance to create meaningful investment pathways, particularly for developing nations, balancing growth with green transition.

Clarity on financial support could catalyse the global cooperation essential for our climate goals.

How has the investment in the RE sector been over the last few years and how do you see the trend going forward?

Investment in renewables has grown, reaching around \$500 billion annually, but remains unevenly distributed, heavily favouring developed nations. India has made impressive progress, now seeing annual investments of over \$20 billion in renewables, thanks to strong policies and private sector confidence. However, the funding gap remains significant, especially for adaptation needs in more vulnerable nations. Meeting global climate goals will require over \$1 trillion annually by 2030, far beyond current commitments.

Developed nations must step up their funding, especially for adaptation projects, while international financial institutions and the private sector have

INDIA HAS MADE SIGNIFICANT STRIDES, ATTRACTING OVER **\$20 BILLION ANNUALLY IN RE INVESTMENTS, DRIVEN BY STRONG POLICIES & PRIVATE** SECTOR CONFIDENCE

vital roles to play. With new frameworks like NCQG, I'm optimistic that capital flow will expand to underserved regions, ensuring a global transition to renewables.

What are the key challenges for the energy companies in realising the ambitious targets set under COP conferences and tripling the RE till 2030? What can be done to mitigate these?

Tripling renewable capacity by 2030 is ambitious, but barriers loom large for certain countries, starting with capital access. In India's case, financing for new technologies

and

emerging markets remains tough, affecting the pace of innovation. Energy companies also face logistical challenges like scaling infrastructure and ensuring grid stability amidst renewables' intermittent nature, while recent trade headwinds add further complexity.

To address this, local governments can streamline regulations and provide stable policies that boost investor confidence. International institutions must increase financial support and risk mitigation,

> creating an ecosystem where energy companies can hit their targets and help drive a sustainable future.

What is your outlook on India's renewable energy sector?

India's renewable journey is impressive, with over 175 GW capacity and a path towards 500 GW by 2030. The "Panchamrit" pledge at COP26 set a bold precedent, backed by strong

> incentives for solar and wind. Yet, it's been a tightrope walk for a country aiming for developednation status by 2047, as India realises it cannot support its

climate fight alone. Future success depends on global support-financial, technological and political—so India can continue its green growth without trade-offs on economic ambitions.

I'm optimistic that with the right backing, India will lead by example, showing sustainable growth is possible for emerging economies.

How do you assess the outcome of COP28 and the action that followed?

COP28 saw promising steps, including the pledge to double adaptation finance to \$300 billion per year by 2030 and a reaffirmation of the \$100-billion annual climate finance goal. The Loss and Damage Fund's official launch was significant, though its finer points remain in progress. But the real challenge is translating these pledges into action. For nations like India, the key will be accessing funds targeted at adaptation and resilience, as climate challenges intensify.

From Sharm el-Sheikh to Para, COP29 should bridge the gap, prioritising global tech innovation and financing. As climate extremes grow and nations face pressing energy and geopolitical challenges, a strong, coordinated response is long overdue. COP29 must deliver on action and accountability, bringing in the funding commitments that vulnerable countries need to avoid bearing the climate burden alone.



Fusion Finance Limited

(Formerly known as Fusion Micro Finance Limited)

CIN: L65100DL1994PLC061287 Registered address : H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028; Corporate office : Plot no. 86, Institutional Sector 32, Gurugram, Haryana- 122001; Contact Person: Deepak Madaan, Company Secretary and Chief Compliance Officer; Tel.: +91-124-6910500 E-mail: companysecretary@fusionfin.com; Website: www.fusionfin.com

Extract of Financial results for the guarter and half year ended September 30, 2024

(₹ in crore unless otherwise stated)

		Q	uarter ende	d	Half yea	Year ended	
S. No.	Darticillare	September 30, 2024	June 30, 2024	September 30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	691.55	688.32	546.64	1,379.87	1,077.71	2,316.73
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(410.21)	(50.72)	165.59	(460.93)	325.05	663.26
3	Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(410.21)	(50.72)	165.59	(460.93)	325.05	663.26
4	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(305.04)	(35.62)	125.69	(340.66)	246.15	505.29
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(304.59)	(34.64)	126.33	(339.23)	247.03	506.52
6	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- each)	100.65	100.65	100.48	100.65	100.48	100.62
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	769.87	1,070.47	834.95	769.87	834.95	1,101.27
8	Securities Premium Account	1,652.15	1,647.52	1,641.50	1,652.15	1,641.50	1,646.26
9	Net worth	2,522.67	2,818.64	2,576.93	2,522.67	2,576.93	2,848.15
10	Earnings Per Share (face value of ₹ 10 /- each) (not annualised for quarter ended)						
	1. Basic:	(30.31)	(3.54)	12.52	(33.85)	24.52	50.30
	2. Diluted:	(30.31)	(3.54)	12.43	(33.85)	24.35	50.11

Ekansh Concepts Limited

(formerly known as Paramone Concepts Limited) CIN: L74110MH1992PLC070070

Reg Office : A 403, 4th Floor, Mittal Commercia, Marol, Andheri East, Mumbai, Maharashtra - 400059 e-mail: info@ekanshconcepts.com, website: www.ekanshconcepts.com, Tel: +91-022-47781806

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2024

		Quarter Ended			Half Yea	Year Ended	
Sr.	Particulars	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
No.		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
1	Total Income from Operations	2270.37	991.85	894.07	3262.22	1557.58	5109.55
	(a) Revenue from Operation	1786.59	903.49	573.44	2690.08	1092.73	4340.23
	(b) Other Income	483.78	88.36	320.63	572.14	464,85	769.32
2	Net profit/(Loss) for the period before tax (before exceptional items)	199.24	94.57	61.69	293.82	93.98	-303.84
3	Net profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	199.24	94.57	61.69	293.82	93.98	-303.84
4	Net profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	187.48	39.65	39.26	227.13	62.47	-329.75
5	Total Comprehensive (Loss)/Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive (Loss)/Income after tax)	-26.62	302.5	291.61	275.88	544.87	976.28
6	Reserves as shown in Audited Balance Sheet						3089.53
7	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each)	1512.76	1512.76	1512.76	1512.76	1512.76	1512.76
8	Earning per share (quarter and half year numbers are not annualised)						
	(a) Basic (Rs.)	1.24	0.26	0.26	1.50	0.41	-2.18
	(a) Diluted (Rs.)	1.24	0.26	0.26	1.50	0.41	-2.18

Fusion Finance

Notes:

4Total Comprehensive (Loss)/Income

1. The above Unaudited Consolidated financial results for the Quarter and Half Year Ended on September 30, 2024, have been reviewed by the Audit Committee of the Board and recommended for approval and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on November 14, 2024 and the Statutory Auditors of the Company have issued an unmodified review report.

Key data relating to standalone financial results of Ekansh Concepts Limited are as follows: (Rs. in Lakhs) Quarter Ended Half Year Ended Year Ended Sr Un-Audited Un-Audited Un-Audited Un-Audited Audited Particulars No. 30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2023 31.03.2024 1Total Income 2,270.37 991.85 894.07 3,262.22 1,557.58 5,109.55 2Plofit/(Loss) Before Tax 199.24 94.58 63.06 293.82 96.72 -299.07 3Profit/(Loss) after Tax 175.08 51.19 44.97 226.27 69.53 -326.61

3. The above is an extract of the detailed format of the Standalone financial results for the Quarter and Half Year Ended on September 30, 2024 filed with the Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the standalone financial results and the Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended on September 30, 2024 are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and Company's Website:www.ekanshconcepts.com

-39.02

For Ekansh Concepts Limited Sd/-Heeralal Agarwal Whole Time Director & CFO DIN: 10269844

551.93

979.42

Notes:

1. The above results have been reviewed by Audit committee and approved by Board of Directors at their respective meetings commenced on November 14, 2024 and concluded on November 15, 2024 in accordance with requirement of the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations, 2015"). The limited review of financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024, have been conducted by the Statutory Auditors of the Company.

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015. The full format of the guarterly and half yearly financial results are available on the stock exchange website's i.e., National Stock Exchange (www.nseindia.com) and BSE Limited(www.bseindia.com) and can be accessed on the website of the Company (www.fusionfin.com).

> For and on behalf of the Board of Directors of **Fusion Finance Limited**

> > Sd/-**Devesh Sachdev** MD & CEO DIN: 02547111



Place: Mumbai


Date: November 14, 2024



314.04

297.32

275.02



financialexp.epaor.in







जनसता

16 नवंबर, 2024

	Regd. & Corporate Office: 11/598/1, Phone: 011-27373622, E		et, Patpar (Sanj Road,	Jheel Khur		110031
	Extract of the Unau and Half Ye					luarter	(र in Lacs
Τ		0	Quarter Ende	d	Half Yea	r Ended	Year End
	Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.20
1		All and a distant	All successful to a state	Hereit ditte d	A Research Marson	I to a start of the start	A

© SRU STEELS LIMITED

Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
Contraction of the Contraction o	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations (Net)	0.00	11.72	771.76	11.72	1687.66	1831.65
Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items	-13.09	-46.05	8.35	-59.14	17.56	43.72
Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items	-13.09	-46.05	8.35	-59.14	17.56	43.72
Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary Items)	-13.09	-46.03	6.19	-59.12	13.00	32.35
Total Comprehensive Income for the period	-13.09	-46.03	6.19	-59.12	13.00	32.35
Equity Share Capital	1198.79	1198.79	1198.79	1198.79	1198.79	1198,79
Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)	-0.11	-0.38	0.05	-0.49	0.11	0.27
Earning Per Share - Diluted (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)	-0.11	-0.38	0.05	-0.49	0.11	0.27
	Total Income from Operations (Net) Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary Items) Total Comprehensive Income for the period Equity Share Capital Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each) Earning Per Share - Diluted	Unaudited Total Income from Operations (Net) 0.00 Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items -13.09 Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items -13.09 Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary Items) -13.09 Total Comprehensive Income for the period -13.09 Equity Share Capital 1198.79 Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each) -0.11 Earning Per Share - Diluted -0.11	UnauditedUnauditedTotal Income from Operations (Net)0.0011.72Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items-13.09-46.05Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items-13.09-46.05Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Extraordinary items)-13.09-46.03Total Comprehensive Income for the period-13.09-46.03Equity Share Capital1198.791198.79Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)-0.11-0.38Earning Per Share - Diluted-0.11-0.38	UnauditedUnauditedUnauditedTotal Income from Operations (Net)0.0011.72771.76Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items-13.09-46.058.35Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items-13.09-46.058.35Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items-13.09-46.058.35Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary items)-13.09-46.036.19Total Comprehensive Income for the period-13.09-46.036.19Equity Share Capital1198.791198.791198.79Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)-0.11-0.380.05Earning Per Share - Diluted </td <td>UnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedTotal Income from Operations (Net)0.0011.72771.7611.72Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items-13.09-46.058.35-59.14Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items-13.09-46.058.35-59.14Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary Items)-13.09-46.036.19-59.12Total Comprehensive Income for the period-13.09-46.036.19-59.12Equity Share Capital1198.791198.791198.791198.791198.79Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)-0.11-0.380.05-0.49Earning Per Share - Diluted-0.380.05-0.49</td> <td>UnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedInterest of the set of the se</td>	UnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedTotal Income from Operations (Net)0.0011.72771.7611.72Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items-13.09-46.058.35-59.14Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional items-13.09-46.058.35-59.14Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary Items)-13.09-46.036.19-59.12Total Comprehensive Income for the period-13.09-46.036.19-59.12Equity Share Capital1198.791198.791198.791198.791198.79Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)-0.11-0.380.05-0.49Earning Per Share - Diluted-0.380.05-0.49	UnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedUnauditedInterest of the set of the se

Notes:

- (1) The above Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 14, 2024. The statutory auditors of the company have carried out the limited review of these Results in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (2) The aforesaid Financial Results for the Quarter ended on September 30, 2024 have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (3) Previous period's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary, to confirm to the current period's classification. For SRU Steels Limited

Mayank Bhandari Managing Director

DIN: 06478224

(₹ in Lacs)

Year Ended 24 62 202

Place : New Delhi Date : 14.11.2024

	J GOPAL ONLINE SERVICES LIMITED (Formerly known as ETT Limited)
	CIN: L90009DL1993PLC123728
Registered Of	fice : 8/18 Basement, Kalkaji Extension, Kalkaji, South Delhi, New Delhi-110019
	Email : ettsecretarial@gmail.com, Mobile : 98250 50507

			our dealer de la	of the second second	and a second second	- and the second s	(s millaus)	
	Contraction of the second	C	uarter Ende	d	Half Yea	r Ended	Year Ended	
S. No.	Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	
90.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income form Operations (Net)	80.55	78.14	68.57	158.69	131.53	274.20	
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax and Exceptional items	73.61	74.62	61.74	148.22	119.33	235.55	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional Items	73.61	74.62	61.74	148.22	119.33	235.55	
4	Net Profit for the period after Tax (after Extraordinary Items)	64.61	55.76	48	120.36	90.58	173.49	
5	Total Comprehensive Income for the period	64.61	55.76	48	120.36	90.58	173.49	
6	Equity Share Capital	1036.87	1036.87	1036.87	1036.87	1036.87	1036.87	
7	Earning Per Share - Basic (after extraordinary items) (of ₹10/- each)	0.62	0.54	0.46	1.16	0.87	1.67	
8	Earning Per Share - Diluted (after extraordinary items) (of ₹10/- each)	0.62	0.54	0.46	1.16	0.87	1.67	

SSS SSS	K
Ц Ш Ц Ц	X
A D	
	sss.com
くして	financialexpress.com
-	「「

म.		समाप्त	ामों का साराँश तिसाही	समाप्त		में, ईपीएस छोड़कर समाप्त वर्ष
	विवरण	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
I q	रिचालनों से कुल आय	27,206	21.821	71.349	44,107	99.90
3	भवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर एवं आपवादिक एवं/अथवा असाधारण नदों से पूर्व)	9,276	7.305	20.039	15,126	33.36
	हर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ∕(हानि) (आपवादिक एवं∕अथवा असाधारण ादों के उपरांत)	1999	1.1	1000	60.55	1323
व	हर उपरांत अवधि हेतू निवल लाभ∕(हानि) (आपवादिक एवं∕अथवा	9,276	7.305	20.039	16,120	33.36
	असाधारण मदों के उपरांत) अवधि हेत कल व्यापक आय (अवधि हेत लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा	9,276	7.306	20.039	18,128	18.53
. I	भवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ ⁄ (हानि) (कर उपरांत) तथा भन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट] ।दत्त समता अंश पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10 ⁄ – प्रत्येक का)	9,275	7.307	20.037	16,128	18.53
3	भारक्षितियाँ (पर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तलन–पत्र में निदर्शितानसार	12,514	34	12,514	14	
f	गुनर्मूल्याँकन`आरक्षित छोड़कर) सेक्योरिटीज प्रीमियम एकाउंट नेट वर्थ	1.09,644	1,09,644	1.09.644	1.09,844	10.55.09
n - I	।दत्त ऋण पूंजी ∕ बकाया ऋण	10.75,145	10,52,702	10,75,145	10,52,702	10,55,10
3	ऋण समता अनुपात भाय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का) (परिचालनरत् तथा अपरिचालित	0.70	0.72	0.70	0.72	0.7
	ारिचालनों हेतु) (अवार्षिकीकृत) : -मूलभूत (रु. में) -तरलीकृत (रु. में) रंजी मोचन आरक्षित	1.52 1.52	1.35 1.35	3.28 3.28	2.98 2.98	3.4 2.4
4 3	स्थापत्र मोचन आरक्षित ऋण सेवा कवरेज अनुपात	88.35	0 377.91	187.75	824.17	(3,149.37
6 6	याज सेवा कवरेज अनुपात	88.35	377.91	187.76	824.17	(3,149.37

Regd. Office Phone: +91 9	OSCIENCES LIMITED : Village Bhondsi, Tehsil Sohna, Dis 654746544, 9654206544 Email: con w.kimiabiosciences.com, CIN : L242	npliance.kimia@gmail.com & info@kimiabiosci	ences.com	$\boldsymbol{\times}$
TRODUCC. THE	UNAL	IDITED FINANCIAL RESULTS ND HALF YEAR ENDED SEPTE	MBER 30, 2024 (ર in Lakhs	except EPS
e.	GIN DV6 - 55/7	Quarter Ended	Half Year Ended	Year ended

Notes:

- (1) The above Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2024 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 14, 2024. The statutory auditors of the company have carried out the limited review of these Results in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
- (2) The aforesaid Financial Results for the Quarter ended on September 30, 2024 have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standard) Rule, 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (3) Previous period's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary, to confirm to the current period's classification. By order of the Board for and behalf of

Place : DELHI Date : 14.11.2024 Laddu Gopal Online Services Limited (Formerly known as ETT Limited) Afsana Mirose Kherani Managing Director DIN: 09604693



Sr.	Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from Operations	2,817.86	2,239.93	2,420.01	5,057.79	4,843.02	10,487.65
8	Other Income	37.09	8.33	63.74	45.42	76.26	164.18
Ш	Total Income (I+II)	2,854.95	2,248.26	2,483.75	5,103.21	4,919.28	10,651.83
IV.	Expenses:	I		0-	-		
	a) Cost of materials consumed	1,746.35	1,497.22	970.43	3,243.57	2,861.35	6,735.80
	b) Change in inventories of finished goods and work-in-progress	(20.95)	(274.57)	872.75	(295.52)	771.08	789.73
	c) Employee benefits expenses	352.45	342.83	389.52	695.28	788.22	1,515.25
	d) Finance costs	103.93	110.84	111.92	214.77	239.50	504.98
	e) Depreciation and amortisation expense	78.64	89.78	82.31	168.42	165.52	329.23
	f) Other expenses	403.10	303.96	383.47	707.06	782.42	1,495.21
V	Total Expenses (IV)	2,663.52	2,070.06	2,810.40	4,733.58	5,608.09	11,370.20
VI	Profit/(loss) before exceptional items and Tax (III-V)	191.43	178.20	(326.65)	369.63	(688.81)	(718.37)
VII	Exceptional Items		1.0	1		1	
VI	Profit/(loss) before tax (IV-V)	191.43	178.20	(326.65)	369.63	(688.81)	(718.37)
VII	Tax expenses:						
	a) Current Tax	31.95	29.74	34	61.69		- E9
	b) Deferred Tax charge / (credit)	(1.86)	4.75	(82.48)	2.90	(173.59)	(187.50)
VIII	Profit/(loss) for the period (VI-VII)	161.34	143.70	(244.17)	305.04	(515.22)	(530.87)
IX.	Other Comprehensive Income						
Α.	Items that will not be reclassified to Profit or Loss (Net of Tax)						
	- Remeasurement of defined benefit plans				2.2		17.69
В,	Items that will be reclassified to Profit or Loss (Net of Tax)	.) ÷	. 84		1		
X	Total Comprehensive Income for the period (VIII+IX)	161.34	143.70	(244.17)	305.04	(515.22)	(513.18)
XI	Paid up equity share capital (Face value of Rs.1 per equity share)	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13
XII	Other Equity						(440.03)
XIII	Earnings per equity share (not annualised)			LO S LO DO			
	Basic in Rs.	0.34	0.30	(0.52)	0.64	(1.09)	(1.12)
	Diluted in Rs.	0.34	0.30	(0.52)	0.64	(1.09)	(1.12)

FOR KIMIA BIOSCIENCES LIMITED
Sd/-
Sameer Goel
(Managing Director & CEO)
DIN - 00161786

मैग्नम वैंचर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः कार्यालय नं. HNOMN01, हब और ओक, ई–14, लोअर ग्राउंड फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली डीएल 110024 येवसाइटः www.magnumventures.in; ईमेलः info@magnumventures.in; फोन: 91--11--42420015; सीआईएन: L21093DL1980PLC010492

सूचना 02/2024-25 की असाधारण आम बैठक और दूरस्थ ई-मतदान सूचना

एतइवारा सूचना दी जाती है कि मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 02/2024–25 एक्स्ट्रा-ऑडिंनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) सोमवार, 9 दिसंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से विशेष कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी. जैसा कि उक्त एक्स्टा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित किया गया है। ईजीएम और रिमोट ई—वोटिंग विवरण की सचना उन सभी सदस्यों को मेजी गई है, जिनके पास कट ऑफ डेट, यानी 8 नवंबर, 2024 को ईमेल द्वारा शेयर है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/ डिपॉजिटरी (ऑ) के साथ पंजीकृत है। शेयरघारकों को नोटिस के इंमेल को पूरा करने की तिथि नवंबर, 17, 2024 है। उक्त दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in पर भी देखा जा सकता है !

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA') और भारतीय प्रतिभूति और विनिभय बोर्ब द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों के अनुसरण में, इसे वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (VC) या अन्य ओंडियो विजुअल मीन्स (OAVM) के माध्यम से EGM आयोजित करने की अनुमति है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष कंपनी आवेदन (सीएए)14 / सीएचडी / एचआरवाई / 2024 नेखित के मामले में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के प्रावधान aliz

निम्नसिखित के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में: टेक्स कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय मोहम्मदपुर खांडसा रोड, गुडगांव, हरियाणा–122001 में हैखिमण्ड कंपनी/आवेदक कंपनी न, '

टेक्स फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय मोहम्मवपुर खाडसा रोड, गुडगांव, हरियाणा–122001 में है

मैसर्स टेक्स कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिमुत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों की सूचना का विझापन लदहारा सुचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़, पीठं-2 ('एनसीएल रोपहुरि (पिये) किया जाता डे कि मानमांच संदूषि अपनी विश्व आवेक्षर, प्रकार के पिये मा कि जाता के साथ ने अपने आदिष्टा दिनांक 2 जुलाई, 2024 (आदेश) के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 ('सीएए नियम'') के संगत प्रावधानों और उसके अधीन अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन लागू नियमों के तहत मेरास टेक्स कॉर्प प्राइवेट लिमिटेंड (डिमज्ड कंपनी / आवेवक कंपनी न 1) और मैसर्स टेक्स फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी / आवेदक कंपनी नं. 2) और उनके संयधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीघ व्यवस्था की योजना ('योजना'') पर विचार करने और यदि जरूरी हुआ तो उसे अनुमोदित करने के लिए अडदेश की तिथि अर्थात 02 जुलाई, 2024 के अनुसार टेक्स कॉर्प प्राइयेट लिमिटेड के प्रतिमृत लेनवारों और अप्रतिमृत लेनदारों की बैठकों को आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

(पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की	प्रतिमूत एवं अप्रतिमूत लेगदारों की बैठकें बुलाने का निर्णय			12 2	Unaudited	Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudite					
गई प्रति) ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए अनुरोध मेजें। कृपया अपना बैंक विवरण मूल कैंसल	क. स्टेकहोल्डर की बैठक सं. (कट—ऑफ सिथि 2 जुलाई, 203	बैठक का माध्यम (4)	दिवस, तिथि एवं समय	1 Total Income from Operations	691.55	688.32	546.64	1,379.87	1,077.71	2,316.73	
येक के साथ हमारे आरटीए (अर्थात एमएएस संविसेज लिमिटेड, टी-34 2nd पलोर) ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फंज-11, नई दिल्ली-110020) को फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ मेंजे, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है। डीमेंट होल्डिंग: कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से संपर्क करें और DP द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करें, कृपया कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश भगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपना बेंक विवरण भी अपठेट करें।	1. प्रतिमूत लेगदार	कंफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (कंफिन) हारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफार्म के मध्यम से	शनिवार, 21 दिसम्बर, 2024 को प्रात : 11.00 बजे आईएसटी	2 Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Except and/or Extraordinary items)		(50.72)	165.59	(460.93)	325.05	663.2	
	(केफिन) हारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफार्म के माध्यम से	शनिवार, 21 दिसम्बर, 2024 को दोप, 1.00 बजे आईएसटी	3 Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(410.21)	(50.72)	165.59	(460.93)	325.05	663.2		
सके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी धिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधानों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण गवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसरण में, कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज	अधिनियम की धारा 230 से 232 के साथ पटित धारा 102 एवं अन्य लागू प्राक्धानों और सीएए नियमों के नियम 6 के अंतर्गत उपरोक्त बैठकों की सूचना, योजना की एक प्रति, व्याख्यात्मक वक्तव्य और इंडेक्स में दर्शाए गए अन्य सभी अनुलग्नकों के साथ ('दरसावेजों के साथ सूचना') को 02 जुलाई, 2024 को डिमज्डें कंपनी के प्रतिमत जेवरायों और अपनिवत जेवरायों को विस्वयितित करीके में सेवा सुरा प्रा		4 Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(305.04)	(35.62)	125.69	(340.66)	246,15	505.2		
डेपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल <u>www.evoting.nsdi.com</u> के माध्यम से सभी प्रवसाय लेनदेन करने के लिए ई—योटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप 1 अपना योट डाल सकें 1	प्रतिमृत लेनदारों और अप्रतिमृत लेनदारों को निम्नलिखित तरीके से मेचा गया था – चन प्रतिभूत / अप्रतिभूत लेनदारों को इलेक्ट्रोनिक मोठ के नाम्यम से जिनकी ई–मेल आईळी ठिमच्छे कंपनी और / या के पास उपलब्ध हैं । – उन प्रतिभूत / अप्रतिभूत लेनदारों को स्पीठ पोस्ट / पंजीकृत डाक / कूरियर के माध्यम से जिनकी ई–मेल आईडी ठिमच्ड कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। दरतावेजों के साथ सुचना ठिमच्डे कंपनी की वेबसाइट WWW.TEXFASTENERS COM पर और केफिन टेक्नोलोजीज लिनिटेड ('केफिन') की वेबसाइट https://evoling.klinlech.com पर भी उपलब्ध होने। उपरोक्त कथित सूचना के साथ दरतावेजों की प्रति बैठक की तारीख तक ठिमच्डे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से सभी			5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) Other Comprehensive Income (after tax)]	nd (304.59)	(34.64)	126.33	(339.23)	247.03	506.5	
सदस्य कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दे: क. रिमोट ई—वोटिंग शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और रविवार, 8 दिसंबर, 2024 को शाम 06.00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई—वोटिंग उपरोक्त तिथि और समय से परे उपलब्ध नहीं होगी। ख. ईजीएम में रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि 2 दिसंबर, 2024 है। ग. कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी 2 दिसंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह evolng@nsdi-co-in या मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी के आर एंड टी एजेंट टी—34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—II, नई दिल्ली—110 020 फोन—011—26387281/82/83, फैंक्स—				6 Paid up Equity Share Capital (face value of ₹ 10/-	ach) 100.65	100.65	100.48	100.65	100.48	100.6	
				7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)	769.87	1,070.47	834.95	769.87	834.95	1,101.2	
	abhinav.vasal@in.texfasteners.co	रजे से साथ 5:00 बजे तक या n पर मेल भेजकर नि:शुल्क प्राप्त की	गे जा सकती है।	8 Securities Premium Account	1,652.15	1,647.52	1,641.50	1,652.15	1,641.50	1,646.2	
	डिमर्ज्य कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माज्यमाँ ('रिमोट ईवोटिंग') और उपरोक्त बैठको के दौरान ईवोटिंग की सुविधा के लिए कंफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (फॅफिन) की संवर्ध ली हैं ताकि प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों			9 Net worth	2,522.67	2,818.64	2,576.93	2,522.67	2,576.93	2,848.1	
	को अपनी–अपनी बैठकों में पारित वि वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बेठकों का तरीका या बैठकों के दौरान ई–वो	त्ये जाने वाले प्रस्तायों पर अपना वोट	वालने में सक्षम बनाया जा सर्क। ईवोटिंग के माध्यम से वोट ढालने	10 Earnings Per Share (face value of ₹ 10 /- each) (no annualised for quarter ended)							
	नोटस में दिए गए हैं। वैकि डिमर्ज्ड कंपनी ने बेठकों से पहर	चुँकि डिमर्ज्ड कंपनी ने बैठकों से पहले रिमोट ई—वोटिंग या बैठकों के चौरान ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान की		1. Basic:	(30.31)	(3.54)	12.52	(33.85)	24.52	50.3	
Ref. ACOUPSER A Link manufacture over 11 U.S. 201 States That States That a state of the states of			A DESCRIPTION OF CLOCKED AND AND AND			720120-011	A Plan & Set Alex 1				
	समय—सारणी इस प्रकार है: ई—वोटिंग का माध्यम	लेनदारों की बैठकों के लिए रिमो समय-सारपी प्रारंभ समय : मंगलवार १७ वि	ट ईवोटिंग ऑर ईवोटिंग की	2. Diluted: Notes:	(30.31)	(3.54)	12.43	(33.85)	24.35		
प्राप्त कर सकता है। a. हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही सिमोट ईयोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो ये अपना योट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा स्मिट ईयोटिंग मॉडव्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। इ. एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर चोट दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। a. ईवोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने ईजीएम से पठले स्मिट ईवोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। छ. सदस्य ईजीएम नोटिस में दिए गए विस्तृत ईवोटिंग निर्देशों को पढ सकते हैं या <u>https://evotingindia.com</u> पर जा सकते हैं और ईवोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न / शिकायत सुक्षी आइना गुप्ता, कंपनी सचिव, मेन्नम वेंधर्स लिमिटेड, cs_mvl@cissahibabad.in या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर संपर्क करें।	समय-सारणी इस प्रकार है: इं-वोटिंग का माध्यम रिमोट ई-वोटिंग अग्नतिमूल लेनदारें की बैठकों पर ई- प्रतिमूल और अप्रतिभूत लेनदारों के उ उनके बकाया ऋण के मूल्यों के अनु परिणाम, संविक्षक की रिपोर्ट के खाथ, वोफिन की वेबसाइट https://evoling रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी /evoling.kintech.com (केफिन वेबस (एकएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकतों भ पर मेल कर सकते हैं या किसी भी आ प्रतिमूल / अप्रतिमूल लेनदार केफिन भाइनेशियल डिस्ट्रियर, नानकरानगुर संघर्क कर सकते हैं । उपरोक्त कथित बेठकों के संबंध में नि उपरोक्त कथित बेठकों के संबंध में नि	लेनदारों की बैठकों के लिए रिमोर रामय-सारणी प्रारंभ समय : मंगलवार, 17 दि (आईएसटी) समापित समय : साथ 5.00 बजे (आईएसटी)(ने रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति केटिंग जैसा कि उस्पक्ष द्वारा निर्देशि केटिंग जैसा कि उस्पक्ष द्वारा निर्देशि केटिंग जैसा कि उस्पक्ष द्वारा निर्देशि केटिंग अधिकारों की मणना 2 जुलाई सार की जाएगी, जैसा कि डिमव्ह प डिमव्ह कंपनी की वेवसाइट WWW, (Miniech.com पर प्रदर्शित किए जाए प्रश्न और / या शिकायत के मामले में ताइट) के जाउनलांच संबरान पर चप नुआल का अवलोकन कर सकते हैं या ई- य स्पष्टीकरण के लिए टोल क्री नंबर देक्नोलॉजीज लिमिटेड खेलेनियम त स सेरिसिंगमपत्ली, रंमारेडी, तेलंगाना केव सकते हैं या ई-मेल skill	ट ईवोटिंग और ईवोटिंग की देसम्बर, 2024 को प्रांत : 9.30 बजे शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को Iट: कथित तिथि एवं समय के बाद नहीं दी जाएगीं) (त किया जा सकता है , 2024 ('कट-ऑफ तारीख') को हंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है। TEXFASTENERS.COM पर और (गे। प्रतिभूत / अप्रतिभूत लेनदार https:/ लख्ध अक्सर पूर्छ जाने वाले प्रश्न मेल einward.ns@kfintech.com 18003094001 पर कॉल करें। टावर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, 1, हैंदराबाद500032, भारत में मी के मामले में संबंधित स्टेकडोल्डर्स esh.kuman@texfasteners.com/	 Notes: 1. The above results have been reviewed by Audit of commenced on November 14, 2024 and concluded of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requiring financial results for the quarter and half year ended Company. 2. The above is an extract of the detailed format of quarter available on the stock exchange website's i.e., National can be accessed on the website of the Company. 	(30.31) mmittee and app on November 15, ements) Regulation September 30, 2 rterly results fileo gulations 2015. Th onal Stock Exchai	(3.54) proved by B- 2024 in acc ons, 2015 ("L 024, have be with the St ise full format nge (www.ns	12.43 oard of Dire ordance with isting Regula en conducte ock Exchang of the quart eindia.com) a	(33.85) ectors at the h requireme ations, 2015 ed by the Si ed by the Si es under Re terly and hal and BSE Lim behalf of th	24.35 eir respectiv nt of the Re "). The limite tatutory Aud egulation 33 if yearly fina ited (www.bs ne Board of I Fusion Final	e meetin gulation 3 d review litors of ti of the SE ncial resu eindia.com Directors nce Limite So sh Sachd	
प्राप्त कर सकता है। a. हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही सिगेट ईयोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो ये अपना योट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा स्मिट ईयोटिंग मॉडवूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। इ. एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर योट दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। a. ईवोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने ईजीएम से पठले स्मिट ईवोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। ७. सदस्य ईजीएम नोटिस में दिए गए विस्तृत ईवोटिंग निर्देशों को पढ सकते हैं या <u>https://evotingndia.com</u> पर जा सकते हैं और ईवोटिंग से संबंधित कोई मी प्रश्न / शिकायत सुक्षी आइना गुप्ता, कंपनी सचिव, मेन्नम वेंधर्स लिमिटेड, cs_mv@cissahibabad.in या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर संपर्क करें। ज. मेसर्स मुनीश के शर्मा एंड एसोसिएट्स एलएलपी को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए स्कूटिनिजर के फप में नियुक्त किया गया है।	समय-सारणी इस प्रकार है: इं-वोटिंग का माध्यम रिमोट ई-वोटिंग अग्नतिमूल लेनदारें की बैठकों पर ई- प्रतिमूल और अप्रतिभूत लेनदारों के उ उनके बकाया ऋण के मूल्यों के अनु परिणाम, संविक्षक की रिपोर्ट के खाथ, वोफिन की वेबसाइट https://evoling रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी /evoling.kintech.com (केफिन वेबस (एकएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकतों भ पर मेल कर सकते हैं या किसी भी आ प्रतिमूल / अप्रतिमूल लेनदार केफिन भाइनेशियल डिस्ट्रियर, नानकरानगुर संघर्क कर सकते हैं । उपरोक्त कथित बेठकों के संबंध में नि उपरोक्त कथित बेठकों के संबंध में नि	लेनदारों की बैठकों के लिए रिमोर रामय-सारणी प्रारंभ समय : मंगलवार, 17 दि (आईएसटी) समाफि समय : साथ 5.00 बजे (आईएसटी)(ने रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति केटिंग जैसा कि उस्पक्ष द्वारा निर्देशि केटिंग जैसा कि उस्पक्ष द्वारा निर्देशि केटिंग जैसा कि उस्पक्ष द्वारा निर्देशि केटिंग जैसा कि उस्पक्ष द्वारा निर्देशि हिमज्डे कंपनी की वेबसाइट WWW. (Mintech.com पर प्रदर्शित किए जा। प्रश्न और / या शिकायत के मामले में नाइट) के जाननलोब सेक्शन पर लप नुआल का अवलोकन कर सकते हैं या ई त्ये स्पष्टीकरण के लिए टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम त य, सोरेसिंगमपत्सी, रंगारेड्री, तेलगाना केसी भी प्रक्रताछ और / या शिकायत	ट ईवोटिंग और ईवोटिंग की देसम्बर, 2024 को प्रांत : 9.30 बजे शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को Iट: कथित तिथि एवं समय के बाद नहीं दी जाएगीं) (त किया जा सकता है , 2024 ('कट-ऑफ तारीख') को हंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है। TEXFASTENERS.COM पर और (गे। प्रतिभूत / अप्रतिभूत लेनदार https:/ लख्ध अक्सर पूर्छ जाने वाले प्रश्न मेल einward.ns@kfintech.com 18003094001 पर कॉल करें। टावर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, 1, हैंदराबाद500032, भारत में मी के मामले में संबंधित स्टेकडोल्डर्स esh.kuman@texfasteners.com/	 Notes: The above results have been reviewed by Audit of commenced on November 14, 2024 and concluded of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) for the quarter and half year ended Company. The above is an extract of the detailed format of quarter available on the stock exchange website's i.e., National conclusions and Disclosure Requirements), Results for the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provide the stock exchange website's i.e., National conclusions and provid	(30.31) mmittee and app on November 15, ements) Regulation September 30, 2 rterly results fileo gulations 2015. Th onal Stock Exchai	(3.54) proved by B- 2024 in acc ons, 2015 ("L 024, have be with the St ise full format nge (www.ns	12.43 oard of Dire ordance with isting Regula en conducte ock Exchang of the quart eindia.com) a	(33.85) ectors at the h requireme ations, 2015 ed by the Si ed by the Si es under Re terly and hal and BSE Lim behalf of th	24.35 eir respectiv nt of the Re "). The limite tatutory Aud egulation 33 if yearly fina ited (www.bs ne Board of I Fusion Final Dever	gulation 3 d review litors of th of the SE ncial resul ceindia.cor	

Fusion 16-16 Finance

Fusion Finance Limited (Formerly known as Fusion Micro Finance Limited)

CIN: L65100DL1994PLC061287

Date : November 14, 2024

Place : New Delhi

Registered address : H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi-110028; Corporate office : Plot no. 86, Institutional Sector 32, Gurugram, Haryana-122001; Contact Person: Deepak Madaan, Company Secretary and Chief Compliance Officer; Tel.: +91-124-6910500 E-mail: companysecretary@fusionfin.com; Website: www.fusionfin.com

Extract of Financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024

(₹ in crore unless otherwise stated)

; आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया	उपरोक्त आदेश के कम में किसी भी स्थगन संहित बैठकों के लिए श्री भुपेश गुप्ता और श्री विनोद कुमार महाजन					(vin clore diffess other mac at					
ोएम की सूचना प्राप्त करने और ईवोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी	को क्रमशः अध्यक्ष और वैकलिपक अध्यक्ष के रूप में नियक्त किया गया है। इसके अलावा श्री शभम गप्ता					Quarter ended			Half year ended		Year ended
ल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। तेक होल्डिंग: कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों, एमएएस सर्विसंज लिमिटेड को @masserv.com पर फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (आगे और पीछे), पैन	रने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को जीर तसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, डिमज्ड व		में डिमज्डें कंपनी के प्रबंधन ने	S. No.			June 30, 2024	September 30, 2023		September 30, 2023	March 31, 2024
भूगाव्वकेक प्रकाश पर फंगलचा पंचर, रायरवारचे का पांप, रायर प्रमाण पंच (जाग जार पांछ), पंप 1 कार्ड की स्वयं सत्यापित स्केंन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्केंन की	प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत लेनदारो की	बैतके बुलाने का निर्णय				Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
प्रति) ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए अनुरोध मेजें। कृपया अपना बैंक विवरण मूल कैंसल	क्र. स्टेकहोल्डर की बैठक सं. (कटऑफ तिथि 2 जुलाई, 2	बैठक का माध्यम 2024)	दिवस, तिथि एवं समय	1	Total Income from Operations	691.55	688.32	546.64	1,379.87	1,077.71	2,316.73
5 के साथ हमारे आरटीएँ (अर्थात एमएएस संविसेज लिमिटेड, टी–34 2nd क्लोर) ओखला स्ट्रियल एरिया, फंज–॥, मई दिल्ली–110020) को फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए पत्र के	1. प्रतिमूत लेगदार	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') हारा उपलब्ध कराए	शनिवार, 21 विसम्बर, 2024 को प्रात्त : 11:00 बजे	2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exception	al	052324530	0 10.0820380		1000 1000 1000 1000 1000	t) fa tataatati shi
ध मेंजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है। नेट होस्डिंगः कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से संपर्क करें और DP द्वारा सुझाई गई	 अप्रतिमृत लेनवार 	गए प्लेटफार्म के मख़्यम से बोधिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	आईएसटी शनिवार, 21 विसम्बर, 2024	2	and/or Extraordinary items)	(410.21)	(50.72)	165.59	(460.93)	325.05	663.20
त्या के अनुसार अपना ईमेल एढ़ेस रजिस्टर करें, कृपया कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर रसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण मी अपडेट करें।	ंगए प्लेटफार्म	(केफिन) हारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफार्म के मध्यम से	ध्यम से आईएसटी	2	Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(410.21)	(50.72)	165.59	(460.93)	325.05	663.26
के अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पतित कंपनी वेनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधानों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण वश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसरण में, कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज	अधिनियम की धारा 230 से 232 के साथ पठित धारा 102 एवं अन्य लागू प्रावधानों और सीएए नियमों के नियम 6 के अंतर्गत उपरोक्त बैठकों की सूचना, योजना की एक प्रति, व्याख्यात्मक वक्तव्य और इंडेक्स में दर्शाए गए अन्य सभी अनुलग्नकों के साथ ("दस्तावेजों के साथ सूचना") को 02 जुलाई, 2024 को डिमर्ज्ड कंपनी के प्रतिमत जनवारी और अपनिवत जनवारों को निम्नविधित तरीके से मेजा गया था			4	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(305.04)	(35.62)	125.69	(340.66)	246,15	505.2
प्रत्यकताएं) विभिदेह (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल <u>www.evoting.nsd.com</u> के माध्यम से सभी गंजिटरी लिमिटेह (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल <u>www.evoting.nsd.com</u> के माध्यम से सभी प्रसाय लेनदेन करने के लिए ई—वोटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप अपना वोट डाल सकें।	प्रतिमूत लेनदर्शि और अप्रतिमूत लेनदारों को निम्नलिखित तरीके से मेंचा गया था – चन प्रतिमूत /अप्रतिमूत लेनदारों को इलेक्ट्रॉनिक मोठ के माध्यम से जिनकी ई—मेल आईठी ठिमज्र्ड कंपनी और / या के पास उपलब्ध हैं । – उन प्रतिमूत /अप्रतिभूत लेनदारों को स्पीड पोस्ट / पंजीकृत ठाक / कुरियर के माध्यम से जिनकी ई—मेल		5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(304.59)	(34.64)	126.33	(339.23)	247.03	506.5	
स्य कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:	आईडी डिमर्ज्ड कंपनी के पास दरतावेजों के साथ संचना जिमज	THE REPORT OF THE	STENERS COM पर और केफिल	6	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- eac		100.65	100.48	100.65	100.48	100.6
रिमोट ई—वोटिंग शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और रविवार, 8 दिसंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई—वोटिंग उपरोक्त तिथि और समय से	टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('क्रेफिन')	दरतावेजों के साथ सूचना डिमज्डे कंपनी की वेबसाइट WWW.TEXFASTENERS.COM पर और केफ़िन टेक्नोलॉजीज सिमिटेड ('केपीन') की वेबसाइट https://evoling.kfinlech.com पर भी उपलब्ध होने । उपरोक्त कथित सचना के साथ दरतावेजों की प्रति बैठक की तारीख तक डिमज्डे कंपनी के पंजीकत कार्यालय से सभी			Reserves (excluding Revaluation Reserve)	769.87	1,070.47	834.95	769.87	834.95	1,101.2
परे उपलब्ध नहीं होगी।	E. S. M. Martin and A. S. Martin and M. Martin and M. Martin and M. S. M. S. Martin and M. S. M. S. Martin and M. S. Marti	बजे से साथ 6:00 बजे तक था com पर मेल भेजकर निजल्क पाल क		8	Securities Premium Account	1,652.15	1,647.52	1,641.50	1,652.15	1,641.50	1,646.2
ईजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 2 दिसंबर, 2024 ई।	डिमजर्व कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्य	abhinav vasal@in.texfasteners.com पर मेल भेजकर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है । डिमज्जें कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माज्यमाँ ('रिमोट ईवोटिंग') और उपरोक्त बैठकों के दौरान ईवेटिंग की सुकिस के लिए कंफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (कंफिन') की सेवाएं ली हैं ताकि प्रतिमृत लेनदारों और अप्रतिमृत लेनदारों			Net worth	2,522.67	2,818.64	2,576.93	2,522.67	2,576.93	2,848.1
कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 2 दिसंबर 2024 को शेयर रखता है, वह evolng@esdl-co-in या मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी के आर एंड टी एजेंट टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला	को अपनी—अपनी बैठकों में पारित किये जाने वाले प्रस्तावों पर अपना दोट बालने में सम्रम बनाया जा सके। बीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठकों में शामिल होने, बैठकों से पहले रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट ढालने का तरीका या बैठकों के दौरान ई—योटिंग के महयम से वोट ढालने के विस्तृत निर्देश बैठकों की सूचनाओं के			10	Earnings Per Share (face value of ₹ 10 /- each) (not annualised for quarter ended)		(allociation)				
औद्योगिक क्षेत्र, फेज11, नई दिल्ली110 020 फोन01126387281/82/83, फेंक्स	चुँकि डिमप्टर कंपनी ने बेटकों से प	नोट्स में दिए मए हैं। बुँकि डिमर्ज्ड कंपनी ने बैठकों से पहले रिमोट ई–वोटिंग या बैठकों के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान की हैं, इसलिए, प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों के लिए रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की समय–सारणी इस प्रकार है			1. Basic:	(30.31)	(3.54)	12.52	(33.85)	24.52	50.3
011—26387384. ईमेले— info@masserv.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।	समय-सारणी इस प्रकार है.				2. Diluted:	(30.31)	(3.54)	12.43	(33.85)	24.35	50.1
हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही सिमेट ईयोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो ये अपना योट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासंबर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा सिमेट ईयोटिंग मॉडवूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर चोट दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईयोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ईयोटिंग द्वारा अपना वोट ढाला है, वे मी इंजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्य ईजीएम नोटिस में दिए गए विस्तृत ईयोटिंग निर्देशों को पढ़ सकते हैं या <u>https://evotingndia.com</u> पर जा सकते हैं और ईयोटिंग से संबंधित कोई मी प्रस्त / शिकायत सुक्षी आइना गुप्ता, कपनी सचिव, मैन्नम वेंचर्स लिमिटेड, cs_mvl@cissahlbabad.in या श्री श्रवण मंगल, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर संपर्क करें। मेर्स्स मुनीश के शर्मा एंड एसोसिएट्स एलएलपी को ईयोटिंग प्रक्रिया के लिए स्कूटिनिजर के फप में नियुक्त किया गया है। मैग्नम येंवर्स लिमिटेड के लिए	ईवोटिंग का माख्यम समय-सारखी रिमोट ईवोटिंग प्रारंभ समय : मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को प्रात : 9.30 बजे (आईएसटी) समादि समय : शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को साथ 6.00 बजे (आईएसटी)(नोट: कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ईवोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी) अप्रतिमूत लेनदारों की बैठकों पर ईवोटिंग जैसा कि उज्यब द्वारा निर्देशित किया जा सकता है प्रतिमूत और अप्रतिभूत लेनदारों के योटिंग अधिकारों की गणना 2 जुलाई, 2024 (कट-ऑफ तारीख') को उनक बकाया ज्रण के मुल्यों के अनुसार की जाएगी, जैसा कि डिमर्ज्ड कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है। परिणाम, संवैक्षक की रिपोर्ट के साथ, डिमर्ज्ड कंपनी की वेयसहट WWW.TEXFASTENERS.COM पर और योफिन की वेबसाइट https://evoling.klintech.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे। रिमोट र्यु-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुआल का अवलोकन कर सकते है या ई-मेल einward.rs@klintech.com पर सेल कर सकते हैं या किसी मी अस्य स्पर्थाकरण के लिए टोल फ्री नंबर 1800-309-4001 पर कॉल करें। प्रतिमूत / अप्रतिमूत लेनदार केकिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, माइनीवेयल डिस्ट्रियर, नानकरामगुडा, सीरेसिंगमपत्ली, रंगारेडी, तेलगाना, हैदराबाद-500032, नास में मी संपर्क कर सकते हैं। उपरांक्त कथित बैठकों के संबंध में किसी भी पुछलाछ और / या शिकायत के मामले में संबंधित स्टेकडाल्डर्स वपरांक्त कथित बैठकों के संबंध में किसी भी पुछलाछ और / या शिकायत के मामले में संबंधित स्टेकडाल्डर्स वपरांक्त कथित बैठकों के संबंध में किसी भी पुछलाछ और / या शिकायत के मामले में संबंधित स्टेकडाल्डर्स वपरांक्त कथित पत पर संपर्क कर सकते हैं या इं-मेल: akhliesh:kumar@texfasteners.com abhinav.vasal@in.lexfasteners.com पर सेल नेज सकते हैं या इं-मेल: akhliesh:kumar@texfasteners.com abhinav.vasal@in.lexfasteners.com पर सेल नेज सकते हैं या फोन न +95124-4629100 पर संपर्क कर			 Control SED (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2013 (Listing Regulations, 2013). The infinited review financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024, have been conducted by the Statutory Auditors of Company. The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the 3 (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015. The full format of the quarterly and half yearly financial results are available on the stock exchange website's i.e., National Stock Exchange (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and can be accessed on the website of the Company (www.fusionfin.com). 							